



# भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29—मई 5, 2006 (वैशाख 9, 1928)  
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29—MAY 5, 2006 (VAISAKHA 9, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400021, दिनांक 01 अप्रैल 2006

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 2005-2006 के लाभांश का भुगतान, यदि कोई है, करने के लिए, बुधवार 21 जून, 2006 से शुक्रवार 30 जून, 2006 (इन दोनों दिनों को शामिल करते हुए) तक की अवधि के लिए, शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा।

अरुण कुमार पुरवार  
अध्यक्ष

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुंबई-51, दिनांक 13 मार्च 2006

सा. का. अकेआ/प.अ./डीएलआई/छूट/2006/पीटी-आई/1883--जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। (जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है)।

## अनुसूची-I

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं तिथि	कोड नं. सहित स्थापना का नाम एवं पता	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89/पीटी 1, दिनांक 10.1.94	मैसर्स ट्रान्सपेक इन्डस्ट्री लि. मु. एवं पो. एक्लाबारा-391440 ता. पाद्रा, जि. बड़ोदा, जीजे/बीडी/5231	1.3.99--28.2.02, 1.3.02--28.2.05, 1.3.05--29.2.08
2.	आरंभिक छूट	मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज, 402 4था माला, आर. के. सेन्टर फतेहगंज बड़ोदा-390002, जीजे/बीडी/22259	1.9.05--31.8.08
3.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I, दिनांक 10.1.94	मैसर्स जीएसएफसी लि. (पॉलिमर यूनिट), पो. पेट्रोकेमिकल-391346 लि. बड़ोदा, जीजे/बीडी/10985	1.3.02--28.2.05, 1.3.05--29.2.08
4.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी 1, दिनांक 17.11.93	मैसर्स बडोदरा डिझैल्स, सुरज इस्टेट, बहुचराजी रोड, बडोदरा-390018, जीजे/बीडी/2287-ए	1.12.92--30.11.95, 1.12.95--30.11.98, 1.12.98--30.11.01, 1.12.01--30.11.04, 1.12.04--30.11.07
5.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी II, दिनांक 28.5.02	मैसर्स टॉप-ओ-सिल, 876/2, जीआईडीसी इस्टेट, मकरपुरा, बडोदरा-390010, जीजे/बीडी/18079	1.1.04--31.12.06
6.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी II/1002 दिनांक 28.5.02	मैसर्स हिमालया मशीनरी प्रा. लि., 608, जीआईडीसी मकरपुरा, इन्ड. एरिया, बडोदरा-390010, जीजे/बीडी/10416	16.12.01--15.12.04, 16.12.04--15.12.07
7.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी II/1002, दिनांक 28.5.02	मैसर्स वेलकम ग्रुप, वडोदरा, आर. सी. दत्त रोड, बड़ोदा-390007, जीजे/बीडी/17531	24.6.03--23.6.06
8.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I/4520, दिनांक 12.10.99	मैसर्स ऑप्टिमा डायमण्ड टूल्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 956, जीआईडीसी इस्टेट, वाघोडिया-391760, जीजे/बीडी/20945	1.9.01--31.8.04, 1.9.04--31.8.07
9.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I/984, दिनांक 12.10.04	मैसर्स सुपर साइन्टीफिक वर्क्स प्रा. लि. ई/70-71, सरदार इस्टेट, आहवा रोड, बड़ोदा, जीजे/बीडी/20971	1.3.05--29.2.08
10.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी II/1002, दिनांक 28.5.02	मैसर्स अल्मीन एक्सट्रक्शन, 876/1, जीआईडीसी, इस्टेट, मकरपुरा, वडोदरा-390010, जीजे/बीडी/15905	1.1.04--31.12.06
11.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I, दिनांक 1.1.94	मैसर्स अन्योना कुप बैंक लि. 'प्रताप' प्रताप रोड, रावपुरा, वडोदरा-390001, जीजे/बीडी/4688	1.12.95--30.11.98, 1.12.98--30.11.01, 1.12.01--30.11.04, 1.12.04--30.11.07

1	2	3	4
12.	आरंभिक छूट	मैसर्स फाईन सिराकोट सरफेस प्रा. लि. 454, जीआईडीसी इस्टेट, मकरपुरा वडोदरा-390010, जीजे/बीडी/20888	1.9.03--31.8.06
13.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I, दिनांक 31.8.92	मैसर्स सागर स्प्रिंग प्रा. लि., लकी स्टूडियो के पास, पो. मेघासर, ता. हलोल, जि. पंचमहल जीजे/बीडी/15935	1.1.95--31.12.97, 1.1.98--31.12.00, 1.1.01--31.12.03, 1.1.04--31.12.06
14.	सं. 2/1959/डीएलआई/छू/89 पीटी I/6133-50, दिनांक 23.2.00	मैसर्स बोम्बाडीअर ट्रांसपोर्टेशन इआरडीए रोड, मनेजा बड़ोदा-13 इन्ड. लि. जीजे/बीडी/20986	1.11.00--31.10.03, 1.11.03--31.10.06
15.	आरंभिक छूट	मैसर्स मीनाक्षी केमिकल्स प्रा. लि. सीताराम वाडा, प्रताप रोड, रावपुरा, वडोदरा-390001, जीजे/बीडी/17137	1.7.02--30.6.05, 1.7.05--30.6.08
16.	आरंभिक छूट	मैसर्स अलाईड इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कं. 358, जीआईडीसी, मकरपुरा-390010, जीजे/बीडी/6477	1.3.1996--28.2.1999, 1.3.1999--28-2-2002, 1.3.2002--28-2-2005, 1.3.2005--29-2-2008
17.	आरंभिक छूट	मैसर्स यूनिफेब इंजीनियरिंग 107, जीआईडीसी, मकरपुरा, वडोदरा-10, जीजे/बीडी/17389	1.4.2000--31.3.2003, 1.4.2003-31.3.2006

## अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।
10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यंगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गये व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अनतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

व्ही. एन. शर्मा

अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त  
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 01st April 2006

## NOTICE

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India will be closed for transfer of shares for payment of dividend for 2005-2006, if any, from Wednesday, the 21st June 2006, to Friday, the 30th June, 2006 both days inclusive.

A. K. PURWAR

Chairman

## MINISTRY OF LABOUR

## EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION

Mumbai-51, the 13th March 2006

S.O. ACC/WZ/30J/DLI/Exemption/2006/PT-I/1883—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employee's Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/CPFC Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

## Schedule—I

Sl. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, Dtd. 10.1.94	M/s Transpek Industry Ltd., At & PO Eklabara-391440 Tal. Padra, Dist. Baroda. GJ/BD/5231	1.3.99—28.2.02, 1.3.02—28.2.05, 1.3.05—29.2.08
2.	Initial Exemption	M/s Sun Pharmaceuticals Industries, 402, 4th floor, R. K. Centre Fatehgunj, Baroda-390002. GJ/BD/22259	1.9.05—31.8.08
3.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, dt. 10.1.94	M/s GSFC Ltd. (Polymer Unit), PO Petrochemicals-391346 Dist. Baroda. GJ/BD/10985	1.3.02—28.2.05 1.3.05—29.2.08
4.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, dt. 17.11.93	M/s Vadodara Diesels, Suraj Estate, Bahucharaji Road Vadodara-390018. GJ/BD/2287-A	1.12.92—30.11.95, 1.12.95—30.11.98, 1.12.98—30.11.01, 1.12.01—30.11.04, 1.12.04—30.11.07
5.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. II, dt. 28.5.02	M/s Top-O-Seal, 876/2, GIDC Estate, Makarpura, Vadodara-390010. GJ/BD/18079	1.1.04—31.12.06
6.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. II/1002, dt. 28.5.02	M/s Himalaya Machinery P. Ltd. 608, GIDC Makarpura, Ind. Area, Vadodara-390010. GJ/BD/10416	16.12.01—15.12.04, 16.12.04—15.12.07

1	2	3	4
7.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. II/1002, dt. 28.5.02	M/s Welcome Group, Vadodara, R. C. Dutt. Road, Baroda-390007. GJ/BD/17531	24.6.03—23.6.06
8.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I/4520, dt. 12.10.99	M/s Optima Diamond Tools Pvt. Ltd. Plot No. 956, GIDC Estate, Waghodia-391760. GJ/BD/20945	1.9.01—31.8.04, 1.9.04—31.8.07
9.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I/984, dt. 12.10.04	M/s Super Scientific Works P. Ltd., E/70-71, Sardar Estate, Ahwa Road, Baroda. GJ/BD/20971	1.3.05—29.2.08
10.	No. 2/1959 DLI/Exm/89/ Pt. II/1002, dt. 28.5.02	M/s Almin Extrusions, 876/1, GIDC Estate, Makarpura, Vadodara-390010. GJ/BD/15905	1.1.04—31.12.06
11.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, dt. 1.1.94	M/s Anyonya Coop Bank Ltd. 'Pratap' Pratap Road Raopura, Vadodara-390001, GJ/BD/4688	1.12.95—30.11.98, 1.12.98—30.11.01, 1.12.01—30.11.04, 1.12.04—30.11.07
12.	Initial Exemption	M/s Fine Ceracote Surfaces P. Ltd., 454, GIDC Estate, Makarpura Vadodara-390010. GJ/BD/20888	1.9.03—31.8.06
13.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, dt. 31.8.92	M/s Sagar Springs P. Ltd, Near Lucky Studio, PO Meghasar, Tal. Halot Dist Panchmahal. HGJ/BD/15935	1.1.95—31.12.97, 1.1.98—31.12.00, 1.1.01—31.12.03, 1.1.04—31.12.06
14.	No. 2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I/6133-50, dt. 23.2.00	M/s Bombadier Transportation ERDA Road, Maneja, Baroda-13 Ind. Ltd., GJ/BD/20986	1.11.00—31.10.03, 1.11.03—31.10.06
15.	Initial Exemption	M/s Minaxi Chemicals Pvt. Ltd., Sitaram Wada, Pratap Road Raopura, Vadodara-390001. GJ/BD/17137	1.7.02—30.06.05, 1.7.05—30.06.08
16.	Initial Exemption	M/s Allied Electrical Engineering Co. 358, GIDC Estate, Makarpura, Vadodara-390010. GJ/BD/6477	1.3.96—28.2.99, 1.3.99—28.2.02, 1.3.02—28.2.05, 1.3.05—29.2.08
17.	Initial Exemption	M/s Unifab Engineers 107, GIDC, Makarpura, Vadodara-10, GJ/BD/17389	1.4.00—31.3.03, 1.4.03—31.3.06

## Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P. F. Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (A) Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA

Additional Central P. F. Commissioner  
for and on behalf of Central P. F. Commissioner